



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 आषाढ़ 1947 (श10)  
(सं0 पटना 1199) पटना, मंगलवार, 8 जुलाई 2025

---

परिवहन विभाग

अधिसूचना

3 जुलाई 2025

सं0 01/निगम(बस क्रय)—09—08/2025 परि0, 5515—बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अंतर्राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता के उपरान्त राज्य के आम जन मानसों को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नन ए.सी. बसों के परिचालन की योजना है। अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन से लगभग 3000 यात्री प्रतिदिन लाभान्वित होंगे।

इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना द्वारा रू० 68.00 लाख प्रति बस की अनुमानित दर से 74 Non AC Deluxe (2x2 Push Back) बस का क्रय किया जाना है। बसों के क्रय हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को 50.32 करोड़ (पचास करोड़ बत्तीस लाख) रुपये सहायक अनुदान के रूप में व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2025-26 से किया जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी,  
सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1199-571+10-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>